

Abu Road: National Conference-cum-Meditation Retreat on "Wisdom for Changing Time in Business and Industry through Rajyoga" was organized by Business and Industry Wing, Rajyoga Education and Research Foundation & Brahma Kumaris Organisation from 27th to 31st January 2017 at its Shantivan Campus, Abu Road, Rajasthan, India. Over 5000 delegates from Business and Industry sector participated in the 3-day conference.

आबू रोड। ब्रह्माकुमारीज संस्था के शांतिवन में आयोजित व्यापार एवं उद्योग प्रभाग सम्मेलन का उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतनमोहनी जी के पावन उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सारे भारत देश से 5000 से भी अधिक व्यापारी एवम उद्योगपतियों भाग लिया। कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए दादी रतनमोहनी जी ने कहा कि वर्तमान समय संसार में सुख के साधन होते भी सब अशांति महसूस कर रहे हैं। जिसके लिये सभी भिन्न भिन्न प्रयत्न कर रहे हैं। मनुष्य अपने खुशी बाह्य भौतिक पदार्थों में ढूँढ रहा है, लेकिन आंतरिक खुशी अनुभव करने के लिए आत्म अनुभूति एवं परमात्म अनुभूति करने की जरूरत है। व्यापार एवं उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। परन्तु धन कमाने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हम सात्विकता और आध्यात्मिकता के लिए इसका उपयोग करें इससे व्यापार में सफलता होगी। राजयोग ध्यान जीवन में उंचाईयों पर ले जाता है। इसलिए राजयोग को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। सम्मेलन में अतिथियों को सम्बोधित करते हुए प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी बहन ने कहा कि बदलते समय के साथ-साथ साइंस और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है। लेकिन साथ-साथ जीवन तनावयुक्त हो गयी है, इसलिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करना चाहिए। उद्योग में योग शब्द समाया हुआ हुआ है इसका साथ उन्होंने सभी मेहमानों को राजयोग का अभ्यास की करवाया। ब्रह्माकुमारी गीता बहन, मुख्यालय संयोजिका, व्यापार और उद्योग प्रभाग, ने सभी आये हुए मेहमानों का स्वागत किया। साथ में संस्था की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भ्राता अन्ना साहेब चाकोटे, प्रसिद्ध उद्योगपति, कोल्हापुर ने अपने वक्तव्य में ब्रह्माकुमारी संस्था के कार्य की सराहना करते हुए शुभ भावना व्यक्त की जैसे बिजनेसमें अच्छी बिजनेस के लिए हमेशा तैयार रहना है, वैसे ही यहाँ से हमें जो उर्जा और शिक्षा मिलेगी, वह हम अपने में भरकर, सुख शांति का अनुभव करके फिर इस उर्जा का उपयोग हमारे समाज, कंपनी तथा देश के लिए करेंगे। सम्मेलन में हाल ही में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में पाक सैनिकों की गोलाबारी के दौरान शहीद हुए बांसवाड़ा (राजस्थान) का जवान हर्षित भदोरिया तथा उरी सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद हुए राजसमंद(राजस्थान) के राजवा गांव के हवलदार निम्बसिंह रावत के परिजनों को व्यापार एवं उद्योग की ओर से एक एक लाख के चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी ने कहा कि शहीदों के परिजनों को सहयोग राशि प्रदान गर्व की बात है ताकि लोगों को सेना के प्रति रूझान पैदा हो सके। इसलिए ऐसे प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में दिल्ली के सुप्रसिद्ध व्यवसायी जगमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसे लोगों की मदद करना सुकन पैदा करती है। भारत के प्रत्येक नागरिक को बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी निभाना चाहिए। इस अवसर पर परिजनों ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्था का यह सराहनीय प्रयास है। कार्यक्रम में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मैनेजमेन्ट विशेषज्ञ बीके स्वामिनाथन, मुंबई से पधारे व्यापारी भ्राता हरेश भाई, ब्रह्माकुमारी क्रीना बहन, मोहनभाई पटेल आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। 20एबीआरओपी, 1, 2, 3, 4 शहीद के परिजनों के साथ दादी, उद्घाटन करते अतिथि, सम्बोधित करती दादी।